

of (he Chief Minister, I want to draw the attention of the House and of the Home Minister to another statement where she says that if the Centre does not implement the Award immediately, the unity and integrity of the country will be in danger. Actually she says, Madam, that this will go against the unity and integrity of the country. I think, this is a veiled kind of threat. This is a veiled threat to the Centre that she has some kind of secessionist views in her mind(Interruptions)....

SHRI G. SWAMINATHAN (Tamil Nadu): She only said that Karnataka has to give water...

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: I want to call upon the Home Minister to find cut...

SHRI G. SWAMINATHAN: ...otherwise there will be a fight between one State and another.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: ...if he has any information of any move by State of Tamil Nadu to secede from the Indian Union because this is very dangerous. (Interruptions)....

SHRI G. SWAMINATHAN : It is unfair to say that she has got something in her mind...

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Already, Madam, the Chief Minister had gone on fast and the entire State was at a standstill. So many people suffered. Little children suffered. The people of Tamil Nadu suffered. Today, Madam, on a most important day, from the ramparts of the Fort St. George, she has gone to the extent of threatening us with secession. I think, it is shocking (Interruptions)....

SHRI G. SWAMINATHAN : The Government of India had announced. The hon. Minister of Water Resources came there. They made promises..

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN : Madam, to talk about unity and integrity of the country" in this context is a very dangerous trend...

SHRI G. SWAMINATHAN : She wanted the promises to be kept. That is all.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, I want to know what the Home Minister is going to say about it and whether he has any information about this.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN) : I can well appreciate the strong feelings that hon. Chief Ministers might be having on certain issues. But we will certainly ascertain whether she has gone to the extent of saying that this is going to endanger the unity and integrity of this country. Certainly we would like to ascertain the facts. Then, whatever action is called for, we will look into it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Mohammed Afzal.

SHRI MURASOLI MARAN (Tamil Nadu): Action for setting the Cauvery water dispute or action for uttering those words? (Interruptions) How about Cauvery waters ? What is your reaction ? How about implementing the interim award? What is your reaction? (Interruptions)

SHRI S. B. CHAVAN : That does not justify giving this kind of a threat, if at all she has given it.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Mr. Afzal.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल (उत्तर प्रदेश) : मैडम, मैं आपकी तबज्जह.....

مشری محمد افضل عرف م. افضل (اُتر
پردیش) : میڈم، میں آپ کی توجہ...

उपसभापति : I have to make an announcement regarding that. आप अपना बोल बंदियेगा । मगर राजेश पायलट जी इस सिलसिले में, जम्मू के बारे में 5.30 बजे एक सोझो-मोटे स्टेटमेंट भी करने वाले हैं ।

KILLING OF THE INNOCENT HINDUS BY MILITANTS IN DODA

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मैडम, मैं शुकुगुजर हूँ । मैडम, जो वाक्या जम्मू के अंदर हुआ है मैं उसकी सख्त खलफाज में मजबूत करता हूँ । 14 तारीख को योमे जम्हूरिया योमे लाजावी के सिर्फ एक दिन पहले जम्मू से जाने वाली एक बस में से डोडा से कोई सात किलोमीटर किस्तवार में, कुछ लोगों को उतारा गया, औरतों और बच्चों को उतारा गया और एक खास यक्षसूय मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को उतारा गया और उस बस को 6 मिलिटेट या 6 नकाबपोशों ने कुछ किलोमीटर आगे ले जाकर इन तमाम लोगों को मार दिया । मैडम, ये तमाम के तमाम लोग हिन्दू थे और

बेगुनाह थे, उनका कोई कसूर नहीं था। उन पर जिस तरह से यह जुल्म किया गया उससे 14 लोग उसी वक्त मारे गये और एक आदमी अस्पताल में जाकर हलाक हो गया। मैडम, उस दिन के अखबार में खबर छपी है जो पी० टी० आई० की तरफ से जारी की गयी थी कि इस वक्त जम्मू-कश्मीर के अंदर जो गतिविधियाँ चल रही हैं, उसके नतीजे में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की जंग के दौरान जितने लोग मारे गये, टोटली, उससे ज्यादा लोग अभी तक जम्मू और कश्मीर में मारे जा चुके हैं, जिनकी तादाद 6 हजार के करीब है। 3545 मकान, 1028 दुकानें, 135 बिजो, 235 स्कूल और 1123 सरकारी बिल्डिंगें जो हैं वे जलकर खाक की जा चुकी हैं। मैडम, मैं आपकी तरफ़ से उस मसले की तरफ़ दिखाना चाहता हूँ, जो नया वाकया हुआ है। कुछ लोग जो वहाँ पर इस्लाम के नाम पर तहरीक चला रहे हैं इस मुल्क से कश्मीर को अलग करने की, मैं उनको यह बात कहना चाहता हूँ, हालांकि तीन तंज़ीमों हिज्बुल मुजाहिदीन, जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और अल्लाहवा द ने, इन तीनों ने इस वाकये की मज्जमत की है और इसके इलावा भी जम्मू-कश्मीर की दूसरी बहुत सी तंज़ीमों ऐसी हैं जो इस्लाम के नाम पर कश्मीर को अलग करने की बात करती हैं। मैं उन तंज़ीमों से या जिसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं, सपना तो यह जाता है शायद उनका ताल्लुक उन्हीं लोगों से है, मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ, जो काम उन्होंने किया है, जिस तरह से बसों से उतार कर बेगुनाह लोगों को मारा है, यह इस्लाम के नाम पर काम करना, इस्लाम को बदनाम करना मुतारादियः है। यह एटी इस्लामिक एक्टिविटी है और इसको कोई शाख्स बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इसकी सख्त से सख्त अलफाज़ में मज्जमत करते हैं और हकूमत से मुताल्ला करने हैं कि इन लोगों को पकड़ने की पूरी कोशिश की जाए। इन बेगुनाह लोगों को जो एक लाख का मुआवज़ा दिया गया है, मैं डिमांड करता हूँ कि पाँच लाख रुपये मुआवज़ा दिया जाए। अगर इस तरह से किसी भी बेगुनाह को मारा जाए जिसका कोई ताल्लुक किसी खराब एनटीविटी से नहीं है, एक बेगुनाह मुसाफिर उसका कोई ताल्लुक किसी एक्टिविटी से नहीं है। जम्मू-कश्मीर के अन्दर बेगुनाह लोगों के मारे जाने की तादाद बहुत ज्यादा है; जो मिलिटरी के लोग मारे जाते हैं, मेरी हमदर्दी उनके ताल्लुक से भी है। जो लोग मिलिटरी के नाम पर मारे जाते हैं, मेरी हमदर्दी उनके साथ भी है। मैडम, मेरे पास एक किताब थी। मैं चंद रोज़ से खोच रहा था कि इस मसले को यहाँ पर हाऊस में उठाऊँगा। मैं आज उन लामलिहाज़ मुजाहिदीन को यह बात कहना चाहता हूँ आज मेरे हाथ उन्होंने काट दिये हैं। मैं यहाँ पर आवाज़ उठाना चाहता था। इसके अन्दर दिया गया है कि किस तरह से कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरियों को कुछ मिलिटेंट आर्गेनाइज़ेशंस ने मारा। मैं एतराफ़ करता हूँ, आज के इस वाकये के बाद मेरे हाथ कट गये, मैं अब इसे उठाने के लायक नहीं रहा। मैं यहाँ पर इसे किस मुँह से उठाऊँ जब बेगुनाह लोगों को इस तरह से मारा जाता है। इसलिए मैं उन लोगों से कहता हूँ कि अगर यह काम वह इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं तो इस्लाम को वो बदनाम न करें। अगर वो यह काम मुसलमान होने के नाम पर कर रहे हैं

तो हिन्दुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों के चेहरे पर कालिख मलने की कोशिश न करें। हम किसी भी हालत में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इन अलफाज़ के साथ उन तमाम परिवारों के साथ अपने दुख का पूरा इज़हार करता हूँ और हकूमत से कहता हूँ कि न सिर्फ़ वह स्टेटमेंट दे बल्कि इसकी अच्छी तरह से जानकारी करे और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।

شری محمد افضل عرف م۔ افضل میڈم۔

میں شکر گزار ہوں۔ میڈم۔ جو واقعہ جموں کے اندر ہوا ہے۔ میں اس کی سخت الفضاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ ۱۷ اتار سنچ کو یوم جمہوریہ۔ یوم آزادی سے صرف ایک دن پہلے جموں سے جانے والی ایک بس میں سے دوڑا سے کوئی سات کلومیٹر کستور میں۔ کچھ لوگوں کو اتارا گیا۔ عورتوں اور بچوں کو اتارا گیا اور ایک خاص مخصوص مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو اتارا گیا اور اس بس کو چھ میلٹنٹ یا چھ نقابو شوں نے کچھ کلومیٹر آگے لے جا کر ان تمام لوگوں کو مار دیا۔ میڈم۔ یہ تمام کے تمام لوگ ہندو تھے اور بے گناہ تھے۔ ان کا کوئی قصور نہ تھا۔ ان پر جس طرح سے یہ ظلم کیا گیا اس سے ۱۷ لوگ اسی وقت مارے گئے اور ایک آدمی اسپتال میں جا کر ہلاک ہو گیا۔ میڈم۔ اس دن کے اخبار میں خبر چھپی ہے جو بی۔ ٹی۔ آئی کی طرف سے جاری کی گئی تھی کہ اس وقت جموں کشمیر کے اندر جو گئی ودھیاں چل رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کے دوران جتنے لوگ

مارے گئے۔ ٹوٹلی۔ اس سے زیادہ لوگ ابھی تک جموں اور کشمیر میں مارے جا چکے ہیں۔ جن کی تعداد چھ ہزار کے قریب ہے۔

تین ہزار پانچ سو پینتالیس مکان۔ ایک ہزار اٹھائیس دکانیں۔ ایک سو پینتیس پرچیزر۔ دو سو پینتیس اسکول اور ایک ہزار ایک سو تیس بلڈنگیں جو ہیں وہ جلا کر خاک کی جا چکی ہیں۔ میڈم۔ میں آپ کی توجہ اس مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں جو نیا واقعہ ہوا ہے۔

کچھ لوگ جو وہاں پر اسلام کے نام پر تحریک چلا رہے ہیں اس ملک سے کشمیر کو الگ کرنے کی۔ میں ان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ تین تنظیموں حزب المجاہدین، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور الجہاد نے۔ ان تینوں نے اس واقعہ کی مذمت کی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جموں کشمیر کی دوسری بہت سی تنظیموں ایسی ہیں جو اسلام کے نام پر کشمیر کو الگ کرنے کی بات کرتی ہیں۔ میں ان تنظیموں سے یا جس کے لئے وہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان کا تعلق انہی لوگوں سے ہے۔ میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ جو کام انہوں نے کیا ہے جس طرح سے بسوں سے اتار کر بے گناہ لوگوں کو

مارا ہے۔ یہ اسلام کے نام پر کام کرنا۔ اسلام کو بدنام کرنے کے مترادف ہے۔ یہ اینٹی اسلامک ایکٹیوٹی ہے۔ اور

اس کو کوئی شخص برداشت نہیں کرے گا۔ ہم اس کی سخت سے سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو پکڑنے کی پوری کوشش کی جائے۔ ان بے گناہ لوگوں کو جو ایک لاکھ کا معاوضہ دیا گیا ہے۔ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ پانچ لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جائے۔ اگر اس طرح سے کسی بھی بے گناہ کو مارا جائے۔ جس کا کوئی تعلق کسی خراب ایکٹیوٹی سے نہیں ہے۔

ایک بے گناہ مسافر اس کا کوئی تعلق کسی ایکٹیوٹی سے نہیں ہے۔ جموں کشمیر کے اندر بے گناہ لوگوں کے مارے جانے کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جو ملٹری کے لوگ مارے جاتے ہیں میری ہمدردی کا تعلق ان لوگوں سے بھی ہے۔ جو لوگ ملٹریس کے نام پر مارے جاتے ہیں میری ہمدردی ان کے ساتھ بھی ہے۔ میڈم۔ میرے پاس ایک تھی۔ میں چند روز سے سوچ رہا تھا کہ اس مسئلے کو یہاں پر ہاؤس میں اٹھاؤں گا۔ میں آج ان نام نہاد مجاہدین کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج میرے ہاتھ انہوں نے کاٹ دیئے ہیں۔ میں یہاں پر آواز اٹھانا چاہتا تھا۔ اس کے اندر

دیا گیا ہے کہ کس طرح سے کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کو کچھ ملی ٹینٹ آرگنائزیشنس نے مارا۔ میں اعتراف کرتا ہوں۔ آج کے اس واقعے کے بعد میرے ہاتھ کٹ گئے۔ میں اب اُسے اٹھانے کے لائق نہیں رہا۔ میں یہاں اس کو کس منہ سے اٹھاؤں جب بے گناہ لوگوں کو اس طرح سے مارا جاتا ہے۔ اس لئے میں اُن لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر وہ یہ کام اسلام کے نام پر کر رہے ہیں تو اسلام کو وہ بدنام نہ کریں۔ اگر وہ یہ کام مسلمان ہونے کے نام پر کر رہے ہیں تو ہندوستان کے بیس کروڑ مسلمانوں کے چہرے پر کالا ملنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم کسی بھی حالت میں اسے برداشت نہیں کریں گے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ ان تمام پریویروں کے ساتھ اپنے ڈکھ کا پورا پورا اظہار کرتا ہوں اور حکومت سے کہتا ہوں کہ نہ صرف وہ اسٹیٹمنٹ دے بلکہ اس کی اچھی طرح سے جانکاری کرے اور جو لوگ اس کے لئے ذمہ دار ہیں اُن کو سخت سزا دی جائے۔

مولانا ابوبکر علی خان آزاد (اتر پردیش):
مہم، یہ بہت گہرا مسئلہ ہے (تقریباً) ایک منٹ (تقریباً) میں ایک بڑی اہم بات کر رہا ہوں۔ ... "مداخلت"۔

مولانا عبید اللہ خان اعظمی: میڈم - یہ بہت گہرا مسئلہ ہے۔ ... "مداخلت"۔

صرف ایک منٹ "مداخلت" میں ایک بڑی اہم بات کر رہا ہوں۔ ... "مداخلت"۔

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): Madam, he wants to associate.

उपसभापति: आप एक मिनट बैठिये। I announced that the Minister is going to make a statement. After my announcement, if you relinquish your right of clarifications, I shall permit you now, and if you do not, I will permit him when the statement is made. not now.

मौलाना अबुलकलाम खान आज़मी: मेहम, सिर्फ एक इन्सानी जल्मा है, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि 14 अगस्त को टेररिस्टों ने जिन बुद्धि कर हिन्दुओं को अलग किया (व्यवधान) 14 अगस्त को उन्होंने अलग कर के धर्म के नाम पर गोशिया मारी। जैसे कि भाई कह रहे हैं, ठीक है यह पहली मर्तबा हुआ अगर यह पहली मर्तबा जिस तरह धिनीनी नफरत की बुनियाद रखी गई है, इससे मुक्त में मोहनवत की बुनियाद डिल जाएगी और इन्सानियत का दबदबा खत्म हो जाएगा। 14 अगस्त को इस तरह से अलग कर के हिन्दुओं को मारने का मतलब क्या है। 14 अगस्त पाकिस्तान की घोषणा आज़ादी है और पाकिस्तान की घोषणा आज़ादी पर पाकिस्तान के साथ इस मुक्त के साथ गहरी करने वाले कुछ गहरो ने यह मेसेज दिया है कि हम हिन्दुस्तान की इन्सानियत को अपनी आज़ादी के नाम पर गुलाम बनाना चाहते हैं और आज़ादी के दिन हिन्दुस्तान के इन्सानों को हम तबाह करना चाहते हैं। हिन्दू-मुस्लिम सद्भावना को खत्म कर के पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है, यह सीधी कार्यवाही पाकिस्तान के जानिब से हुई है। पाकिस्तान के लगे इस तरह का काम कर के इस मुक्त में रहने वाले इन्सानों को एक दूसरे से अलग कर के इन्सानियत को तबाह करना चाहते हैं जिसकी मैं सख्त मजबूत करता हूँ और इस्लाम के नाम पर अगर यह सब कुछ होता है, इस्लाम इस तरह की कोई इजाज़त नहीं देता है। इन बदमाशों पर, इन गहरो पर अबरदस्त तरीके से न सिर्फ यह कि पालवी लगनी चाहिये, गवर्नमेंट जितनी ताकत के साथ इनको कुचल सकती हो, कुचल देना चाहिये इसलिए कि नफरत की इस आग से हमारे मुक्त की सारी सद्भावना गारद हो सकती है। उन तमाम खानदानों को हम खोजेअकीदत पेश करते हैं जिन खानदानों के मासूम इन्सान मार दिये गये, आज हमारा पूरा मुक्त इन्सानियत के नाम पर गमोआलाम की तस्वीर बन कर रह गया है।

मौलाना عبید اللہ خان اعظمی: میڈم - صرف ایک انسانی جذبہ ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا

ہوں کہ ۱۴ اگست کو ٹیرورسٹوں نے جہان بوجھ کر ہندوؤں کو الگ کیا۔ مسلمانوں کو الگ کیا۔ ”مداخلت“ ۱۴ اگست کو انھوں نے الگ کر کے دھرم کے نام پر گولیاں ماریں۔ جیسا کہ بھائی کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے یہ پہلی مرتبہ ہوا۔ مگر یہ پہلی مرتبہ جس طرح سے گھنونی نفرت کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس سے ملک کی محبت کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ اور انسانیت کا دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ ۱۴ اگست کو اس طرح سے الگ کر کے ہندوؤں کو مارنے کا کیا مطلب کیا ہے۔ ۱۴ اگست کو پاکستان کی یوم آزادی ہے۔ اور پاکستان کی یوم آزادی پر پاکستان کے ساتھ اس ملک کے ساتھ غدار کی کرنے والے کچھ غداروں نے یہ میسج دیا ہے کہ ہم ہندوستان کی انسانیت کو اپنی آزادی کے نام پر غلام بنا چاہتے ہیں۔ اور آزادی کے دن ہندوستان کے انسانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہندو مسلم سدبھاؤ نا کو ختم کر کے پاکستان جو کچھ کر رہا ہے۔ یہ سیدھی کارروائی پاکستان کی جانب سے ہوئی ہے۔ پاکستان کے لوگ اس طرح کا کام کر کے اس ملک میں رہنے والے انسانوں کو انسانا دوسرے سے الگ کر کے انسانیت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ جس کی میں سخت مذمت کرتا ہوں اور اسلام کے نام پر اگر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اسلام اس طرح کی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ان بد معاشوں پر۔ ان

غداروں پر زبردست طریقے سے نہ صرف یہ کہ پابندی لگنی چاہئے۔ گورنمنٹ جتنی طاقت کے ساتھ ان کو کچل سکتی ہو۔ کچل دینا چاہئے کہ نفرت کی اس آگ سے ہمارے ملک کی ساری سدبھاؤ نا غارت ہو سکتی ہے۔ ان تمام خاندانوں کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جن خاندانوں کے معصوم انسان مار دیئے گئے ہیں۔ آج ہمارا ملک ملک انسانیت کے نام پر غم و الم کی تصویر بن کر رہ گیا ہے۔

उपसभापति : शास्त्री जी ।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश): माननीय, मैं आपका आभारी हूँ (व्यवधान) ।

DR. JINENDRA KUMAR JAIN (Uttar Pradesh): I want to associate.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have called Shastriji. You can ask for clarifications after the statement is made. You can give your name for clarifications.

श्री. मोहम्मद खलीलुर रहमान (आन्ध्र प्रदेश): मेडम, मोहम्मद अफजल साहब ने जो कुछ कहा है, मैं भी उनके साथ अपने आप को एसोसियेट करता हूँ। इस्लाम के नाम पर जो यह वाक्या हुआ है यह इतना ही गलत वाक्या है, इस्लाम इस किस्म की लाहम किसी को भी नहीं देता। मैं डक्यूमेंट हिन्द से यह दरखास्त करता हूँ कि इस वाक्य के जिम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं इस वाक्य को भरपूर मज़मूत करता हूँ।

شری محمد خلیل الرحمن؛ میڈم، محمد افضل صاحب نے جو کچھ کہا ہے۔ میں بھی اُن کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسی ایٹ کرتا ہوں۔ اسلام کے نام پر جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ انتہائی غلط واقعہ ہے۔ اسلام اس قسم کی تعلیم کسی کو بھی نہیں دیتا ہے۔ میں حکومت ہند سے یہ

درخواست کرتا ہوں کہ اس واقعہ کے ذمہ دار
لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔
میں اس واقعہ کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔

DR. JINENDRA KUMAR JAIN: I am selectively excluded.

THE DEPUTY CHAIRMAN : No exclusion. If you want to speak, if you want to associate, you can associate yourself with it. Like this, many hands were raised.

DR. JINENDRA KUMAR JAIN : I needed your permission. I won't get up without your permission.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Okay. You don't let Shri Shastri speak. You speak.

RE. POSTER EXHIBITION BY
"SAHMAT"
IN AYODHYA CONTAINING OBJEC-
TIONABLE COMMENTS ABOUT RAM
AND SITA

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न पर इस सदन का ध्यान आकृष्ट करने का अवसर मुझे दिया। आप इस बात को जानती होंगी कि सदन में दो बार "सहमत" का मसला उठाया जा चुका है। एक बार माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी ने उठाया, एक बार माननीय सरला माहेश्वरी जी ने उठाया और उसमें यह विवाद हुआ था कि क्यों ऐसा हुआ। मेरे हाथ में "जनसत्ता" का खंका है जो दिल्ली से प्रकाशित हुआ है 15 अगस्त को। उसमें यह बताया गया है कि "सहमत" ने जो बड़ा पोस्टर प्रदर्शनी लगायी थी उस प्रदर्शनी में यह बताया गया कि सीता राम की बहिन है। यह बताया गया कि श्रीराम रावण के पुत्र हैं ... (व्यवधान) ... आप देखिये।

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): On a point of order, Madam ... (Interruptions)

श्री विष्णु कान्त शास्त्री : मुझे बोलने क्यों नहीं देते हैं ... (व्यवधान) ... यह शर्मनाक बात है ... (व्यवधान) ...

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam, I am on a point of order (Interruptions)

उपसभापति : आप बैठिए Mr. Jaipal Reddy, please sit down. Please take your seat. (Interruptions) Mr. Mathur, please sit down. (Interruptions) Permission has been granted to him. Let him speak. (Interruptions)

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal) : Does it mean he can say anything?"

THE DEPUTY CHAIRMAN : You can give your reply. I am not allowing.

एक माननीय सदस्य : पुलिस इन्वॉयरी कराइये ... (व्यवधान)

श्री विष्णु कान्त शास्त्री : अगर आप मुझे बोलने की इजाजत देती हैं और ये ... (व्यवधान)

THE DEPUTY CHAIRMAN: I permitted him to speak. I am permitting it. I will allow Mr. Jaipal Reddy to speak.

श्री विष्णु कान्त शास्त्री : ... (व्यवधान) तो सदन चल नहीं सकेगा इसके बाद ... (व्यवधान)

उपसभापति : उनको बोलने दीजिए। फिर आप बोलिए।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री : मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। मैं आपको और इस सदन को बताना चाहता हूँ कि "सहमत" की जिस प्रदर्शनी के कारण फैजाबाद में इतना बड़ा रोष हुआ उसमें कांग्रेस के—इंका के सब सदस्य सहमत हैं, आप अगर इस अखबार को पढ़ें तो आप देखेंगे कि फैजाबाद ... (व्यवधान)

श्री कैलाश नारायण सारंग (मध्य प्रदेश) : बोलने दीजिए।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री : जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष ने ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सुनने का साहस रखें ... (व्यवधान)

श्री एस. एस. अहलुवालिया (बिहार) : ... एक सदस्य कोई सवाल उठा रहे हैं उसको इस तरह से धमका रहे हैं ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वहाँ इन्वॉयरी करें ... (व्यवधान)

श्री एस. एस. अहलुवालिया : यह पूरी पार्टी जो है बाहर तो धमकाती है लोगों को कोई काम नहीं करने देती है और क्या धमका रही है ... (व्यवधान) बैठ जाओ, यह * नहीं चलेगी यहाँ पर ... (व्यवधान)

श्री कैलाश नारायण सारंग : राम का अपमान नहीं हो सकता ... (व्यवधान)

(Interruptions).

†[] Transliteration in Arabic .Script.

*Expunged as ordered by the Chair.